

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 12733

Unique Paper Code : 2414001006

Name of the Paper : Finance for Everyone

Name of the Course : **B.Tech (CSE/ ECE/ EE)**

Semester : I

Duration: 2 Hours

Maximum Marks: 60

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt four questions in all. Question 1 is compulsory.
3. **All** questions carry equal marks.

1. Explain the concept and importance of financial planning.

(8)

Describe the role of commercial banks in the economy.

(7)

2. "Insurance protects individuals and families against financial losses arising from unforeseen events." Explain the importance and types of insurance.

(8)

"Budgeting is an essential tool for effective money management." Explain the steps involved in preparing a personal budget.

(7)

3. State the factors to be considered before making an investment. (8)

Explain the functions of the Reserve Bank of India. (7)

4. "Financial planning helps individuals achieve their life goals by managing their money effectively." In the light of the statement, explain the different stages of financial planning. (8)

"Bank accounts ensure the safety of funds and provide convenient financial transactions." Describe the major types of bank accounts. (7)

5. Describe the advantages and disadvantages of online payment systems. (8)

"Loans provide access to capital that individuals and businesses require for growth and development." Explain the types of loans offered by banks. (7)

6. Write a short note on the following (any three) (3X5=15)

- a. DI Slips
- b. DEMAT
- c. ULIP
- d. Stock splits

1.

(क) वित्तीय नियोजन (Financial Planning) की अवधारणा एवं उसके महत्व की व्याख्या कीजिए (8 अंक)

(ख) अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंकों (Commercial Banks) की भूमिका का वर्णन कीजिए (7 अंक)

2.

(क) “बीमा अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होने वाली वित्तीय हानियों से व्यक्तियों एवं परिवारों की रक्षा करता है।” बीमा के महत्व एवं उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। (8 अंक)

(ख) “बजट बनाना प्रभावी धन प्रबंधन का एक आवश्यक उपकरण है।” एक व्यक्तिगत बजट (Personal Budget) तैयार करने में शामिल चरणों की व्याख्या कीजिए। (7 अंक)

3.

(क) निवेश करने से पूर्व ध्यान में रखे जाने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। (8 अंक)

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के कार्यों की व्याख्या कीजिए। (7 अंक)

4.

(क) “वित्तीय नियोजन व्यक्तियों को अपने धन का प्रभावी प्रबंधन कर जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है।” इस कथन के आलोक में वित्तीय नियोजन के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। (8 अंक)

(ख) “बैंक खाते धन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं तथा सुविधाजनक वित्तीय लेन-देन उपलब्ध कराते हैं।” बैंक खातों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। (7 अंक)

5.

(क) ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों (Online Payment Systems) के लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। (8 अंक)

(ख) “ऋण व्यक्तियों एवं व्यवसायों को विकास और विस्तार हेतु आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराते हैं।” बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋणों की व्याख्या कीजिए। (7 अंक)

6.

निम्नलिखित में से किसी तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

(3 × 5 = 15 अंक)

- (क) डी.आई. स्लिप्स (DI Slips)
- (ख) डीमैट (DEMAT)
- (ग) यूलिप (ULIP)
- (घ) शेयर विभाजन (Stock Splits)

(500)